

हमने अपनी **classes** में बहुत सी बातें सीखीं जिनमें से कुछ आप जानते थे और कुछ नहीं। पर मुझे यकीन है कि हर **class** में आपको कुछ न कुछ नया सीखने को जरूर मिला होगा। और उससे आपकी न केवल **written English** बल्कि **Spoken English** भी बेहतर हुई होगी।

आपको नहीं लगता आज बहुत **cloudy** - बादल वाला मौसम है। हो सकता है बारिश हो। हो सकता है बारिश न भी हो। और अभी तो **marriage season** चल रहा है। आपको भी बहुत सी जगहों से **invitation** आये होंगे। आने उन्हें बताया है न कि आप उनके **function** आ सकते हैं या नहीं? अगर नहीं तो अपने **reasons** तैयार रखिए कि आप को नहीं जा सकें। या फिर आपने अपनी **maid** को बोला होगा --- अभी मेहमान आने वाले हैं, छुट्टी लेने की तो सोचना भी मत।

ये सभी वाक्य हिंदी में कहने में बहुत आसान लगते हैं पर इंग्लिश में बोलने के लिए इनके लिए कुछ विशेष **verbs** का प्रयोग होता है जिन्हें हम **modal verbs** कहते हैं। ये शब्द आपने पहले भी सुना होगा और आप इनके बारे में थोड़ा बहुत जानते भी होंगे पर आज के **session** में हम कुछ ऐसा जानने की कोशिश करेंगे जिससे हम इनका प्रयोग बोलते समय सही तरह से कर पाएं।

सबसे पहले एक **quick recap** देख लेते हैं और जानते हैं कि **modal verbs** होते क्या हैं -

Modals ऐसी सहायक क्रियाएँ होती हैं जिनका प्रयोग वाक्य में मुख्य क्रिया के साथ किया जाता है ताकि किये जाने वाले कार्य की समर्थता, सम्भावना, निश्चितता, इजाज़त और आवश्यकता व्यक्त की जा सके। (**We use modals to show if we believe something is certain, possible or impossible. We also use them to do things like talk about ability, ask permission, and make requests and offers.**)

Modal verbs के बारे में दो बातें जरूर ध्यान रखें -

- 1) **Modal verbs** के साथ हमेशा **verb** की **1st form** का प्रयोग होता है। कुछ **modal verbs** जैसे **May have / Might have/ Should have/ Must have** इत्यादि के साथ **verb** की **3rd form** का प्रयोग होता है।
- 2) **Modal verbs** पर **tense** का प्रभाव नहीं पड़ता। ये अपने एक ही रूप में प्रयोग होते हैं।

1) अगर आपको अपनी क्षमता (ability) के बारे में बात करनी हो तो आप कैसे करेंगे? मान लीजिये interview में आपसे पूछा जाए तो आप क्या answer करेंगे?

आपको यह तो पता है कि **ability** के बारे में बात करने के लिए **can/ could** का प्रयोग होता है पर कब **can** का प्रयोग करना है और कब **could** का यह **confusion** रहता है।

अगर आपको अपनी वर्तमान (**Present**) के बारे में बात करना है तो आप **can** का प्रयोग करेंगे -

I can play the guitar. (मैं गिटार बजा सकता हूँ।)

She can speak German. (वह जर्मन बोल सकती है।)

आपको भूतकाल (**past**) की अपनी कोई क्षमता के बारे में बात करना हो तो आप **could** का प्रयोग करेंगे -

I could sing very well when I was young. (जब मैं जवान था मैं बहुत अच्छा गा सकता था।)

She could read when she was 4 years old. (जब वह 4 साल की थी वह पढ़ सकती थी।)

They couldn't finish their task last night. (वे अपना टास्क कल रात समाप्त नहीं कर सके।)

अगर आपको भविष्य (**Future**) की किसी **ability** के बारे में बात करना हो तो आप **able to** का प्रयोग करेंगे जैसे -

I will be able to drive a car in 2 years. (मैं 2 साल में कार चला पाऊंगा।)

He will be able to buy a house next year. (वह अगले साल घर खरीद सकेगा।)

She won't be able to go to the party tonight. (वह आज रात पार्टी में नहीं जा पाएगी।)

Could have का प्रयोग आप उस समय करेंगे जब आपको यह बताना हो कि भूतकाल में आप कुछ कर सकते थे पर आपने किया नहीं।

She could have gone to any college she wanted to. अगर वह चाहती तो वह किसी भी कॉलेज में जा सकती थी।

Shalu couldn't have known about the promotion, I haven't told anyone yet! शालू को तरक्की के बारे में पता नहीं था, मैंने अभी तक किसी को नहीं बताया!

I could have danced all night. [but I didn't] मैं पूरी रात नाच सकता था। [लेकिन मैंने नहीं किया]

(Can (सकता है) / Could (सका, पाया) / Could have (सकता था))

2) Advice यानि सलाह देना इस दुनिया का सबसे आसान काम है पर यही काम अगर इंग्लिश में बोल कर करना हो तो यह एक मुश्किल काम भी हो सकता है। आपने भी दूसरों को सलाह दी होगी की उन्हें ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं

करना चाहिए। जब भी हिंदी के वाक्य के अंत में चाहिए था या नहीं चाहिए था, ऐसे शब्द आये तो वहां **should/should not** इत्यादि का प्रयोग होता है। जल्दी से इसे भी जान लेते हैं -

अब अगर आपके कोई **friend** या **relative** बीमार है और आप उन्हें **healthy food** खाने की सलाह देना चाहते हैं तो यह सलाह आप वर्तमान समय में दे रहे हैं तो इस समय **should** का प्रयोग होगा जैसे -

You should eat healthy food. (आपको पौष्टिक खाना खाना चाहिए।)

You should exercise every day. आपको हर दिन व्यायाम करना चाहिए।

अब अगर **advice** किसी **past** की घटना के लिए देना हो तो आप **should have** का प्रयोग करेंगे। बस यहाँ यह याद रखें कि **should have** के साथ **verb** की **3rd form** का प्रयोग होगा।

You should have gone to the party. (आपको पार्टी में जाना चाहिए था।)

She should have studied more often. (उसे अधिक बार पढ़ाई करना चाहिए था।)

negative advice मतलब किसी काम को न करने की सलाह देने के लिए **should not (shouldn't)** का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे आजकल पोल्लुशन बहुत ज्यादा है और आप अपने घर में अपने पिता को सुबह बाहर न निकलने की सलाह देना चाहते हैं तो आप कह सकते हैं

You should not go outside this time. Air is polluted now a days. (आपको इस समय बाहर नहीं जाना चाहिए। वायु आजकल बहुत प्रदूषित है।)

You should not smoke. (आपको **smoke** नहीं करना चाहिए।)

You should not eat too much. (आपको बहुत ज्यादा नहीं खाना चाहिए।)

You shouldn't drive too fast. (आपको बहुत तेज **drive** नहीं करना चाहिए।)

पर अगर आप किसी को काल्पनिक सलाह देना चाह रहे हैं मतलब अपने आप को उसकी जगह रख कर कुछ बताना चाह रहे हैं तो उस समय आप **would** का प्रयोग करेंगे। यह भी एक तरह की **advice** ही है। जैसे -

If I were you, I would return the book. अगर मैं आपकी जगह होता, तो मैं किताब वापिस कर देता।

If I were you, I would not wear that jacket. अगर मैं आपकी जगह होता तो वह जैकेट नहीं पहनता।

जरूरी नहीं है कि आप हमेशा **If I were you** बोले। आप सीधे ही कह सकते हैं -

I wouldn't eat that. मैं वह नहीं खाता।

I would choose the red shoes. मैं लाल जूते पसंद करता।)

Would और **Should** के प्रयोग में एक **major** अंतर हैं। वह है कि जब आप **would** का प्रयोग कर किसी को एडवाइस देते हैं तो आप अपने आप को उसकी **place** पर रख कर बात कर रहे होते हैं। दूसरे शब्दों में अपने आप के बारे में बात करते हैं। पर जब आप **should** का प्रयोग करते हैं तो आप सीधे सीधे किसी अन्य व्यक्ति को सलाह देते हैं। (**Normally, would is used to talk about yourself, and should is used to talk about someone else.**) जैसे -

I would study tonight if I were you. (मैं पूरी रात पढ़ता अगर मैं आपकी जगह पर होता।)

You should study tonight. (आपको आज रात पढ़ना चाहिए।)

सलाह देने के लिए हम **should** की जगह पर **ought to** का भी प्रयोग कर सकते हैं (**Ought to** (चाहिए) / **Ought to have** (चाहिए था)) जैसे -

You ought not to say so. (तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए।)

People ought to have left. (लोगों को निकल जाना चाहिए था।)

भूतकाल की किसी घटना के लिए **advice** देने के लिए **should have + verb** की **3rd form** का प्रयोग होता है। इससे यह पता चलता है कि काम किया जाना चाहिए था पर नहीं किया गया जैसे -

You should have gone there. (तुम्हें वहाँ जाना चाहिए था।)

Life should have been easy but it wasn't. (ज़िन्दगी आसान होनी चाहिए थी पर नहीं थी।)

You should have reminded me. (तुम्हें मुझे याद दिलाना चाहिए था।)

3) अब मान लीजिये आपको अपने बच्चों या घर में छोटों को उनके कर्तव्य के बारे में बताना हो तो? आप उस समय **should का भी प्रयोग कर सकते हैं पर जब आप उन्हें कुछ ऐसे कार्य के लिए कह रहे हो जिन्हे करना उनके लिए आवश्यक है तो उस स्थिति में आप **must** या **must not** का प्रयोग करें। जैसे -**

You must stop at a red light. आपको लाल बत्ती पर अवश्य रुकना चाहिए।

You can wear what you like, but you must look neat and tidy. आप जो चाहें पहन सकते हैं, लेकिन आपको साफ सुथरा अवश्य दिखना चाहिए।

We must serve our parents, हमें अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए।

You must have come. तुम्हें ज़रूर आना चाहिए था।

Must have - ज़रूर/ अवश्य करना चाहिए था।

Advice देने के लिए हम **should, must** और **ought to** का **use** करते हैं। सबका अर्थ एक है पर **they work in slightly different ways**. साधारणतः 'चाहिए' के लिए **Should** तथा अवश्य चाहिए के लिए **Must** का प्रयोग करते हैं। **Should** का उपयोग तब होता है जब हम अपनी राय व्यक्त कर रहे हैं। '**Ought**' का उपयोग '**to**' के साथ किया जाता है। **Should**' का प्रयोग '**ought to**' की तुलना में अधिक व्यापक रूप से किया जाता है जो कि बहुत ही औपचारिक माना जाता है। '**Ought to**' को '**Should**' की तुलना में अधिक औपचारिक और सशक्त माना जाता है। **SHOULD** is used when we want to express our subjective opinion. दूसरे शब्दों में मुझे जो लगता है वो आपके लिए करना **best** है। वही **OUGHT TO** is used when we want to express an objective truth. In other words, 'जो जरूरी है और जिसे **avoid** नहीं किया जा सकता।

(Should - Should का use सलाह/ उपदेश / कर्तव्य का बोध कराने के लिए किया जाता है

Ought to का use duty, necessity and moral obligation (नैतिक जिम्मेदारी) को बताने के लिए किया जाता है। It is not as forceful as must, but it is stronger than should.)

Should का use जो सही है उसे भी बताने के लिए किया जाता है (especially when criticizing somebody's actions)

You shouldn't drink and drive. (आपको शराब पीकर गाड़ी नहीं चलाना चाहिए।)

I think you should buy a new car. (मुझे लगता है कि आपको एक नई कार खरीदनी चाहिए।)

(ought to में हमारे पास choice होती है हम उस advice को माने या नहीं पर अगर नहीं मानते तो उसके परिणाम बुरे हो सकते हैं।)

We ought not to have spent so much on basic medicines. (हमें बुनियादी दवाओं पर इतना खर्च नहीं करना चाहिए।)

We ought not to have ordered so much food. (हमें इतना खाना ऑर्डर नहीं करना चाहिए था।)

Must का use ऐसे ideas जैसे compulsion, obligation or duty को व्यक्त करने के लिए किया जाता है और इसका use एक strong advice देने के लिए किया जाता है। यह should और ought to से अधिक strong होता है। have to का भी use must की तरह ही होता है। बस अंतर इतना है must का use में आपकी व्यक्तिगत राय (personal opinions) होती है जबकि have to का use करने का अर्थ है कि किसी authority ने कहा है कि यह करना जरूरी है। जैसे -

We must love our country. (हमें अपने देश से प्यार करना चाहिए।)

We must get up early. (हमें जल्दी उठना चाहिए।)

You have to look after their hair regularly. आपको नियमित रूप से कुत्ते के बालों की देखभाल करनी होगी।
(dog experts का कहना है)

Do you have to wear a tie for school? क्या आपको स्कूल के लिए टाई पहननी है? (स्कूल के नियमों के बारे में पूछा जा रहा है)

4) इंग्लिश grammar की classes आप regular attend कर रहे हैं पर इसकी कितनी संभावना है कि आप पूरी तरह से सीख पाएंगे? यह संभावना (possibility और probability) बताने के लिए भी हम modal verbs का प्रयोग करेंगे।

सबसे पहले बात करते हैं इंग्लिश में **possibility** को कैसे व्यक्त करें -

जब हम **general statements** की बात करते हैं कि कुछ **possible** है, कोई काम **possible** है तो **can** का use करते हैं -

It can be very cold in winter. सर्दियों में यहां बहुत ठंड हो सकती है। (It is sometimes very cold in winter)

You can easily lose your way in the dark. आप आसानी से अंधेरे में अपना रास्ता खो सकते हैं। (लोग अक्सर अंधेरे में रास्ता भटक जाते हैं।)

ये सभी **general statement** है, **specific** नहीं। आसान शब्दों में ये सब **possible** (संभव) है पर यह नहीं कहा जा रहा कि बिलकुल ऐसा ही होगा।

Could का प्रयोग **can** के **past tense** की तरह किया जा सकता है

I remember winters in London. Weeks could go by without ever seeing the sun! (मुझे अमेरिका में सर्दियां याद हैं। सूरज को देखे बिना सप्ताह गुजर जाते थे।)

जब हम **present** और **future** के बारे में अनिश्चित (**uncertain**) और **unsure** हो, तो **modal verbs** 'could' 'might' और 'may' का use करते हैं। ये **express** करते हैं कि **something is possible but not certain or guaranteed.**

It may rain tomorrow. (कल बारिश हो सकती है। - **Slightly stronger Possibility**)

It might rain tomorrow. (कल बारिश हो सकती है। - **Weak Possibility**)

I might come and visit you next year, if I can save enough money. (यदि मैं पर्याप्त धन बचा सका, तो मैं अगले वर्ष आपसे आकर मिल सकता हूँ। **Weak Possibility**)

They may come by car. वे कार से आ सकते हैं।(Perhaps/Maybe they will come by car. - Slightly stronger Possibility)

‘might’ और ‘may’ लगभग समान ही होते हैं बस उनमें बहुत थोड़ा सा ही **difference** होता है। ‘might’ **express** करता है कि **outcome** थोड़ा कम सम्भव है।)

‘could’ का **use future** के बारे में **uncertain** और **unsure** को **express** करने के लिए किया जाता है. **may**, **might** और **could** के बाद **verb** की **1st form** का **use** किया जाता है।

could have और **might have** का **use** उस संभावना को व्यक्त करने में करते हैं जो अभी **possible** हो या फिर **past** में कभी **possible** थी जैसे -

It’s ten o’clock. They might have arrived now. (दस बजे हैं। वे अब आ गए होंगे।)

The rain might have stopped by now. (अब तक बारिश रुक गयी होगी।)

You might have read in the newspaper. (शायद आपने **newspaper** में पढ़ा होगा।)

Could have का अर्थ है सकता था/ सकती थी या सकते थे।

I could have gone to Mumbai. (मैं मुंबई जा सकता था।)

She could not have eaten junk food. (वह जंक फूड नहीं खा सकती थी।)

You could have bought the cheaper jacket. (आप सस्ती जैकेट खरीद सकते थे।)

The boy could have run away from the bullies, but he decided to confront them. (लड़का दबंगों से भाग सकता था, लेकिन उसने उनका सामना करने का फैसला किया।)

(**might have/ could have** के बाद **verb** की **3rd form** का **use** करते हैं।)

अब बात करते हैं **impossibility** की जो **possible** नहीं है या जिसके **possible** होने की बहुत कम संभावना है। इसे बताने के लिए **can’t** और **couldn’t** का **use** करते हैं -

That can’t be true. (यह सच नहीं हो सकता।)

We knew it could not be true. (हम जानते थे कि यह सच नहीं हो सकता था।)

Probability मतलब **how likely something is to happen** (कुछ होने की कितनी संभावना है)-

जब हम **future** के बारे में बात करते हैं और **confident** होते हैं कि यह काम होगा ही, उस समय हम **will** का **use** करते हैं जैसे -

The sun will rise tomorrow. (कल सूरज उगेगा।) इस बात के लिए हम पूरी तरह से **confident** है कि यह होगा ही।

Neha will be late. (नेहा लेट होगी।) इसके लिए मैं इसलिए **sure** हो क्योंकि वो अक्सर लेट होती है।)

If you don't take a umbrella, you will get wet. It's raining outside. (यदि आप छाता नहीं लेते हैं, तो आप भीग जाएंगे। बाहर बारिश हो रही है।) इस **sentence** में एक **confidence** है कि आप भीग ही जाएंगे।

इसी तरह जब **future** के लिए आपको किसी को आश्वासन देना हो और **confirm** करना हो कि **something is true**, उस समय भी **will** का **use** किया जाता है जैसे -

अब अगर आप बिलकुल **sure** है की कुछ नहीं होने वाला तो आप '**will not**' या '**won't**' का **use** करेंगे जैसे -

If they walk, they won't arrive in time. (यदि वे वॉक करते हैं, तो वे समय पर नहीं पहुंचेंगे।)

जब हम वर्तमान समय (**present**) की बात करते हैं तो **must** का **use** करते हैं (यह बताने के लिए कि हम **confident** है और **sure** भी उस कार्य के लिए जो **present** में हो रहा है और हमारे पास उसका **reason** भी है यह बताने के लिए कि वह क्यों हो रहा है।) जैसे -

The baby is crying. He must be hungry. (बच्चा रो रहा है। वह भूखा होना चाहिए।)

They didn't eat any of the meat. They must be vegetarian. (वे कोई भी मांस नहीं खाते थे। उन्हें शाकाहारी होना चाहिए।)

जब हमें **past** की किसी घटना के बारे में बताना हो तो हम **must have** का प्रयोग करेंगे (**when you're quite sure that something happened**) जैसे -

After flying for 36 hours, you must have felt exhausted. (36 घंटे की उड़ान भरने के बाद, आपको थकावट महसूस हुई होगी।)

You look happy. You must have heard the good news. (आप खुश दिखते हैं। आपने जरूर अच्छी **news** सुन ली होगी।)

हम **should** का **use** भी करते हैं यह बताने के लिए कि कुछ होना **possible** हैं, कुछ संभावना है। हम **100 % sure** नहीं है पर विश्वास है कि होगा। जैसे -

They left an hour ago, they should be here by now. (वे एक घंटे पहले निकल गए थे, उन्हें अब यहां होना चाहिए।)

If they take the car, they should arrive by three.

Ask Vipul. He should know. (विपुल से पूछो। उसे पता होना चाहिए।)

To talk about the past, हम 'should have' का use करते हैं -

I didn't realise he was unwell. We should have offered to take him to the doctor. (मुझे नहीं पता था कि वह अस्वस्थ था। हमें उसे डॉक्टर के पास ले जाने की पेशकश करनी चाहिए थी।)

It's nearly eleven o'clock. They should have arrived by now. (लगभग 6 बज रहे हैं। उन्हें अभी तक आ जाना चाहिए था।)

5) सब कुछ जान लेने के बाद भी आपकी इंग्लिश प्रभावी नहीं होगी जब तक आप अच्छे से किसी से request करना न सीखें या permission कैसे ले यह पता न हो। इनके लिए भी हम modal verbs का ही प्रयोग करते हैं। आइए जल्दी से देख लेते हैं कि कौन से modal verbs हैं? आप इनका रोज़ाना इस्तेमाल करते हैं -

हमें जो चीज़ सबसे पहले आनी चाहिए, वह है किसी से किस तरह request करें। Normally हम Please word का use करते हैं जो बिलकुल सही है। पर कभी कभी ज्यादा polite होने के लिए हम Could, Can, Would you mind..... का भी use कर सकते हैं esp जब आप चाहते हैं कि कोई आपके लिए कुछ करें -

Could you open the door for me, please? (क्या आप मेरे लिए दरवाजा खोल सकते हैं, कृपया?)

Can you open the door for me, please? (क्या आप मेरे लिए दरवाजा खोल सकते हैं, कृपया?)

Would you mind opening the door for me, please? (क्या आपको बुरा लगेगा अगर आप मेरे लिए दरवाजा खोलेंगे, कृपया?)

ध्यान रखिए कि could और can के बाद हमेशा verb (without to) का use होता है (Could is more polite than can) और अगर हम Would you mind का use कर रहे हैं तो इसके बाद हमेशा verb की -ing form का use होगा।

अगर आप किसी को अपनी services offer कर रहे हैं तो आप कुछ इस तरह कह सकते हैं -

Can I help you? (क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ?)

Shall I open the door for you? (क्या मैं आपके लिए दरवाजा खोल दूँ?)

Would you like another coffee? (क्या आप एक और कॉफी पसंद करेंगे?)

Would you like me to answer the phone? (क्या आप चाहेंगे कि मैं फोन का जवाब दूँ?)

I'll do the scripting, if you like. (यदि आप चाहें, तो मैं स्क्रिप्टिंग कर दूंगा।)

Shall, can और will के बाद **verb (without to)** का **use** होता है। **Shall, particularly British English** हैं और अधिक **formal** माना जाता है। **Would you like... is followed either by a noun, or by an object pronoun and the verb with to.**

इसके साथ आपसे अगर कोई **request** करता है तो आपको उतने ही **polite way** में उसे मना करना (**reject**) या फिर मानना (**accept**) भी आना चाहिए।

Can I help you? (क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ?)

Yes please. I'd like to know where the shoes' section is?

No thanks, I'm just looking. (मतलब आप **shop** पर बस कुछ यूँ ही देख रहे हैं।)

OR

Shall I open the door for you?

Yes please. That would be very kind of you.

No thanks./ No thank you. It's OK, I can do it. या **Don't worry, I'll do it.**

तो आज हमने **modal verbs** को जाना एक **different** तरीके से कि किस तरह उन्हें **spoken english** में **use** किया जाए। तो अब आप जब भी कुछ ऐसा बोले तो **think a while**और सही **modal verbs** का प्रयोग करें।